

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली

संख्या: 37-स्टाफ (नियुक्ति)-I/05-2019/खण्डII

दिनांक: 10.01.2020

सेवा में

1. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी विभागाध्यक्ष
2. निदेशक (कार्मिक)

विषय:- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में सहायक निदेशक संशोधित वेतन लेवल-10,(रु. 56,100-1,77,500/-) के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ने प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक लेवल-10 के वेतनमान का पद भरने की सूचना दी है। प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदक की आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पद का विवरण निम्नानुसार है:

| क . स | पद का नाम, वेतनमान | योग्यता तथा अनुभव |
|-------|---------------------------------|---|
| 1. | सहायक निदेशक लेवल-10 के वेतनमान | 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ अनुवादक |

02. इस संदर्भ में, उन योग्य वरिष्ठ अनुवादक के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया जाता है जो इच्छुक हैं और जिन्हें प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक के पद हेतु उनका चयन होने पर तत्काल पदमुक्त किया जा सके। निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ सिफारिशों को **31/01/2020 तक सहायक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (अराजपत्रित)** को भेजा जाए।

- i. संलग्न निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा (2 प्रतियां);
 - ii. किसी अधिकारी, अपर सचिव की रैंक से कम नहीं, द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित पिछले 5 वर्षों की एसीआर/एपीएआर की प्रमाणित प्रतियां और
 - iii. सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र/ सतर्कता तथा Integrity प्रमाण-पत्र और पिछले 10 वर्षों की मुख्य एवं शास्तियों का विवरण।
04. पद के लिए एक बार चयनित उम्मीदवार को बाद में उनकी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

05. सिफारिशें भेजते समय, कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ अनुवादक संवर्ग में संस्वीकृत पदों की संख्या, पदस्थ व्यक्तियों और रिक्त पदों का विवरण अग्रेशन पत्र में विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि


(आर. के. तिवारी)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (नियुक्ति)-I

आवेदन पत्र का प्रारूप

| | |
|--|---|
| 1 नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) मोबाइल नं0 ईमेल आईडी | |
| 2 जन्म तिथि (ईसवी सन् में) | |
| 3 (I) सेवा में आने की तारीख (II) केंद्र/राज्य सरकारी नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख | |
| 4 शैक्षिक योग्यताएं | |
| 5 क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समरूप मानी गई हो तो उसके प्रमाण का उल्लेख करें) | |
| विज्ञापित/रिक्ति परिपत्र में यथाउल्लिखित अर्हता/अनुभव आवश्यक: क) अर्हता ख) अनुभव | अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हता/अनुभव आवश्यक: क) अर्हता ख) अनुभव |
| वांछनीय: क) अर्हता ख) अनुभव | वांछनीय: क) अर्हता ख) अनुभव |
| 5.1 टिप्पणी : परिपत्र/रोजगार में विज्ञापन जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथाउल्लिखित आवश्यक और वांछित अर्हताओं को प्रदर्शित करने के लिए इस कॉलम को प्रवर्धित करने की आवश्यकता है। | |
| 5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में आवेदक के ऐच्छिक/मुख्य विषयों तथा सहायक विषयों को निर्दिष्ट करना होगा। | |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---|--|
| <p>6 ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आलोक में कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आप पद के लिए आवश्यक अर्हताएं और कार्य का अनुभव रखते हैं।</p> | | | | | |
| <p>6.1 टिप्पणी : आवेदित पद के संदर्भ में आवेदक द्वारा धारित संबद्ध आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव (जीवनवृत्त में यथानिर्दिष्ट) की पुष्टि करते हुए आपूर्तिकर्ता विभागों को अपनी विशेष टिप्पणी/दृष्टिकोण उपलब्ध कराने होंगे।</p> | | | | | |
| <p>7 अवधिवार रोजगार के ब्यौरे। यदि नीचे स्थान पर्याप्त न हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अलग सीट संलग्न करें।</p> | | | | | |
| कार्यालय/संस्था | नियमित आधार पर धारित पद | से | तक | *नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान | कार्य का स्वरूप (विस्तृत रूप में) जिसमें आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव को विशिष्टता से दर्शाया गया है। |
| | | | | | |
| <p>*महत्वपूर्ण : एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी के ब्यौरे का निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाए जहां आवेदक द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों :</p> | | | | | |
| कार्यालय/संस्था | एसीपी/ एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन | | से | तक | |
| | | | | | |
| <p>8 वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी</p> | | | | | |
| <p>9 प्रतिनियुक्ति / अनुबंध आधार पर धारित वर्तमान रोजगार के मामले में कृपया उल्लेख करें</p> | | | | | |
| (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख | (ख) प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि | (ग) आवेदक का मूल कार्यालय/ संगठन | (घ) मूल संगठन में वास्तविक सामर्थ्य में धारित पद का नाम और वेतन | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|--|------------------------|
| <p>9.1 टिप्पणी : पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में ऐसे अधिकारियों के आवेदन उनके मूल कैडर/विभाग द्वारा संवर्ग अनापति, सतर्कता अनापति और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किए जाने चाहिए।</p> <p>9.2 टिप्पणी : ऊपर कालम 9 (ग) और 9(घ) के तहत सूचना उन सभी मामलों में दी जाए जहां कोई आवेदक कैडर/संगठन से इतर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है परंतु अपने मूल कैडर/ संगठन में अभी भी ग्रहणाधिकार पर है।</p> | | |
| <p>10 आवेदक द्वारा पूर्व में यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया है तो पिछली प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तारीख और अन्य ब्यौरे</p> | | |
| <p>11 वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया उल्लेख करें - निम्नलिखित के अंतर्गत कार्यरत है :</p> <p>(संबद्ध कालम में अपने नियोक्ता का नाम निर्दिष्ट करें)</p> <p>(क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य</p> | | |
| <p>12 कृपया उल्लेख करें : क्या आप उसी विभाग में और फीडर ग्रेड अथवा फीडर के फीडर ग्रेड में कार्यरत हैं</p> | | |
| <p>13 क्या आप वेतन के संशोधित वेतनमान में हैं। यदि हां, तो संशोधन की तारीख और संशोधन पूर्व वेतनमान का उल्लेख करें।</p> | | |
| <p>14 प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां</p> | | |
| <p>वेतनबैंड में मूल वेतन</p> | <p>ग्रेड वेतन</p> | <p>कुल परिलब्धियां</p> |
| | | |
| <p>15 यदि आवेदक ऐसे संगठन का सदस्य है जो केंद्र सरकार में लागू वेतनमान का अनुसरण नहीं करता तो संगठन द्वारा जारी निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाने वाली अद्यतन वेतन पर्ची संलग्न की जाए।</p> | | |
| <p>वेतनमान और वृद्धि दर सहित मूल वेतन</p> | <p>महंगाई भत्ता/अंतरिम सहायता/ अन्य भत्ते आदि (अलग-अलग ब्यौरों के साथ)</p> | <p>कुल परिलब्धियां</p> |
| | | |

| | |
|---|--|
| <p>16(क) आवेदित पद के संबंध में, पद हेतु आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो। (इसके अलावा (1) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (2) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (3) रिक्ति परिपत्र/ विज्ञापन में निर्धारित अतिरिक्त कार्य अनुभव, के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है।) (टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर अलग शीट संलग्न करें)</p> | |
| <p>16(ख) उपलब्धियां :</p> <p>उम्मीदवार कृपया निम्नलिखित के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (I) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट्स तथा विशेष प्रोजेक्ट्स (II) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशस्ति (III) व्यावसायिक निकायों/ संस्थाओं/ समितियों से संबंधन और (IV) अपने नाम से पंजीकृत अथवा संगठन के लिए प्राप्त पेटेंट्स (V) कोई अनुसंधान / अभिनव मानदंड जिसे आधिकारिक पहचान मिली हो (VI) कोई अन्य सूचना <p>(टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर कृपया अलग शीट संलग्न करें)</p> | |
| <p>17 कृपया उल्लेख करें कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/ विलयन/ पुनः रोजगार आधार # पर आवेदन कर रहे हैं</p> <p>(केंद्र/राज्य सरकार के अधीन अधिकारी ही केवल "विलयन" के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठन के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र हैं</p> <p># "एसटीसी"/ "विलयन"/ पुनः रोजगार का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" अथवा "विलयन" अथवा "पुनः रोजगार" द्वारा भर्ती का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया हो।</p> | |
| <p>18 क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं।</p> | |

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवश्यक योग्यता / कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित मेरे जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना का पद के लिए चयन के समय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदत्त सूचना / ब्यौरे मेरी पूरी जानकारी में ठीक और सत्य हैं तथा मेरे चयन को प्रभावित करने वाले किसी विषय को छुपाया/ रोका नहीं गया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता :-

ईमेल सहित

दिनांक

स्थान

नियोक्ता/ संवर्ग नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं ब्यौरे सत्य और ठीक हैं। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते/रखती हैं। चयन होने की स्थिति में उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (i) श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला लंबित/ विचारणीय नहीं है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- (iii) उनकी सत्यनिष्ठा रिपोर्ट मिसिल (सीआर डोजियर) की मूल प्रति संलग्न की जाती है। भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के पद के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की छाया प्रतियां संलग्न की जाती हैं।
- (iv) पिछले वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/ छोटी शास्ति आरोपित नहीं की गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/ छोटी शास्ति की सूची संलग्न की गई है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी मुहर सहित)